

July 18, 2024

To, Listing/Compliance Department BSE LTD Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001 To, Listing/Compliance Department National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza", Plot No. C/1, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051

BSE CODE - 543998

Dear Sir/Madam,

NSE Symbol: VALIANTLAB

Subject: Newspaper Publication for completion of dispatch of Notice of 3rd Annual General <u>Meeting and Annual Report for FY 2023-24.</u> <u>Ref: Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)</u> <u>Regulations, 2015</u>

Please find enclosed herewith Newspaper advertisements regarding completion of electronic dispatch to the Shareholders of Annual Report for the Financial Year 2023-24 and Notice of the 3rd Annual General Meeting of the Company which is scheduled to be held on Thursday, August 8, 2024, at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), published in following newspapers:

Financial Express (in English) on July 18, 2024.
 Pratahkal (in Marathi) on July 18, 2024.

A copy of the advertisement is also available on the website of the Company at <u>www.valiantlabs.in</u>.

Kindly take the same on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Valiant Laboratories Limited

Ms. Prajakta Patil Company Secretary ICSI M. No.- A53370



1	10	FINANCIAL EXPRESS
	eee VAL	IANT LABORATORIES LIMITED
ž.	ient Laboratorias	CIN: L24295MH2021FLC365964
100	100.001.002.002.000	ng Kubern, Maland Goregoon Link Rand, Maland West – 400000; 20,407 (2721): E: somplionisofficing) valundaba in [W: www.valiondabaim
-	and the second second second by the second	rd ANNUAL GENERAL MEETING
NO	TICE IS HEREBY GIVEN 1	Carl Correction and the second s
1.		I Meeting of the Members of Valant Laboratories Limited
	brough Video Conferenci with all applicable proves the Securities and Exch Requirements) Regular September 25, 2023, il SEBINIO/CFD/CFD-PoD Securities and Exchange	heid on Thursday, August 08, 2024 at 11:00 a.m. (IST) rg/"VC ') Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance ons of Companies Act, 2013 and rules made (hereunder and large Board of India (Listing Obligations and Disclosure rors, 2015 read with General Circular 09(2023) dated suced by the Ministry of Corporato Affairs ("MCA") and -2/P/CIR/2020/167 dated October 07, 2023 issued by Board of India ("SEBI") (hereinafter collectively referred to
2.	in Compliance with the set for 2023-24, has been sen whose email addresses ("DP"). The Notice and A www.vallantiabs.in and v and National Stock Exc www.nstindia.com.resp	sactifie business as set out in the Notice of the AGM, sid circulars, Notice of the AGM alongwith the Annual Report ton July 17, 2024, through electronic mode to those Members, are registered with the Company, Depository Participant(s) much Report is available on the website of the Company at vebsites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") hange of India Limited ("NSE") at <u>www.bseindia.com</u> and octively, and also on the website of National Securities JL"(at www.evoling.nsdi.com)
3	Pursuant to the provision: Rule 20 of the Coopar emended from time to the Secretarial Standard or Company Secretaries of to cast their votes electric to cast their votes electric	of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("Act") readwith nies (Management and Administration) Rules, 2014, as ne. Regulation 44 of SEBI (LOOR) Regulations, 2015 and) General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of India, the Company's pleased to provide its members facility onically on all resolutions set forth in the Notce of the 3rd re Company has availed facility for voting through electronic
ARS	Shareholders are informed	
4.	and ends on Wednesda Members holding shares date i.e. Wednesday, Jul	commence on Monday, August 05, 2024 at 9:00 a.m. (IST) y, August 07, 2024 at 5:00 p.m. (IST). During this period, either in physical form on in demalerialized form as on cut-off by 31, 2024 may cast their vote electronically. The e-voling by NSDL for voting thereafter.
5.		ired shares of the Company and becomes a Member of the
	Company after sending of obtain the User ID and investor@vellandebs in remote e-voting then you	of the Notice and holding shares as of the out-off date may password by sending a request at <u>existing@msd.co.in</u> or Howener, if the person is already registered with NSOL for may use existing User ID and password, and cashyour vote.
ô.	to change it subsequently AGM and those Membe costed their vote on the parted from doing so, st AGM. The Members who	don is cast by the member, the member shall not be allowed y. The facility for e-voting will also be made available during ns present in the AGM through VCIOW/M, who have not resolution through remote e-voting and/or otherwise not call be eligible to vote through the e-voting systems at the cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also
7.	Members who do not hav AGM through VC/OAVM same by following the ra	not be entitled to can their votes again er the User ID and password for e-voling and for attending or have torgother the User ID and password may reif eve the mote e-voling instructions mendioned in the Notice of 3rd can also use the OTP baced login for lodging into the e-voling
B.,	Members shall be able to of AGM provided by NSD login credentials and sele Members attending the /	attend the AGM through VC/OAVM or view the I ve webcast 2L at wave-soling instit com by using their remote e-wolng coing the EVEN for Company's AGM. The attendance of the GGM through VC/OAVM will be contred for the purpose of index Section 103 of the Act.
Pro	case for registering E-m	
9 Pro	their e-mail addresses, in their concerned Depository requested to provide their e ane-mail at <u>int the previde</u>	general their e-mail addresses, so far, are requested to register prespect of electronic holdings with the Depository through y Parlicipant(s). Nembers who hold shares in physical form are e-mail addresses to the Link Intime India Private Limited sending Unkintime on inor to the Company at <u>investor@valant.ads in</u> the Members, holding shares in physical form or email
for	remote e-voting and e-vo In case shares are held in	th the depositories, for procuring user id and password ting during the AGM: shysical mode, please provide folio no., name of abareholder, re certificate (front and back). PAN (self-attested scanned),
Ħ.	In case shares are held in CLID or 16 digit beneficia	by sending artial to investor (givalian Bate) in n Demail mode, picase provide DPID CLID (16 digit DPID + ry ID), name, dient master or copy of consolidated account sted), AADHAR (self-attested) to investor@valiantitates.in.
	Alternatively members ma User ID and password by may be.	ey send an email nequest to evolving general to an torrobianing providing the details montioned in Point (1) or (2) as the case
性	Shareholders and e-volin section of NSDL at www.	- you may refer the Frequently Asked Questions (FACs) for ng user manuel for shareholders available at the download evolution and your or call on tail free no.: 022 - 43857000 or hel Assistant V or Presidental email evolving@read.co.in By order of the Board of Directors For Valiant Laboratories Limited S44
pi-	ce : Mumbal	Prejakte Patil
rNi	e : munical	Company Secretary

www.valiantlabs.in | CIN : L24299MH2021PLC365904 Registered Office: 104, Udyog Kshetra, Mulund-Goregaon Link Road, Mulund (W), Mumbai - 400080. T: 022-49712001 / 49717220 / 49717221 | E: investor@valiantlabs.in



 गिर्णेट रॉगोरेटरेन किसिटेन आजा का गाणिकारणां किस्ता किस्ता कि के प्रायंत किसिटेन किस्ता के किस्ता के किसिटेन किसिटेन के री वार्षिक वर्षतापाल करोनी बुद्धा पुराय पहुते हेकान के की. गीरिंट तर्वारोट के विरिटेन (केसी) का ब्राज्यानी 4 के वर्षिक करेता कि के राजेट तरका के किस्ता का बात हरकाना (कार्य) किसिटेन के किसे का का प्रायंत के किसे के प्रायंत प्रायंत (कार्य) किसे के किसे का का प्रायंत के किसे के प्रायंत करेता (कार्य) किसे के किसे का का प्रायंत के किसे के प्रायंत करेता (कार्य) किसे के किसे का का प्रायंत के किसे के प्रायंत करेता (कार्य) के का प्रायंत के किसे के प्रायंत करेता (कार्य) किसे के किसे का का प्रायंत के किसे के प्रायंत करनेता (कार्य) के का प्रायंत के किसे के प्रायंत करनेता (कार्य) के का प्रायंत के किसे के प्रायंत करनेता के किसे के का प्रायंत का प्रायंत के किसे के प्रायंत करनेता के किसे का प्रायंत का प्रायंत के कि किसे के प्रायंत करनेता के किसे का प्रायंत का प्रायंत के कि किसे का किसे का प्रायंत के किसे के का प्रायंत का प्रायंत के कि किसे का किसे का प्रायंत के किसे के किसे का प्रायंत के कि किसे का किसे का प्रायंत के किसे के किसे के किसे के किसे के का प्रायंत के का कि का कि प्रायंत करते के किसे के का प्रायंत का प्रायंत के का कि का प्रायंत करते के प्रायंत के का कि किसे के का करेका का प्रायंत के का कि कार्य करका के प्रायंत के का करेका का प्रायंत के का प्रायंत करता के किसे के का का प्रायंत का प्रायंत के का प्रायंत करता के किसे का का प्रायंत का प्रायंत के का प्रायंत करता के किसे का प्रायंत करेका का प्रायंत के का प्रायंत करता के किसे का प्रायंत करका के का प्रायंत के का प्रायंत करता के किसे का प्रायंत कराव के का का प्रायंत का प्रायंत के का प्रायंत करावा के का प्रायंत कराव के का प्रायंत का प्रायंत के का प्रायंत कराव के का प्रायंत के का प्रायंत के का प्रायंत का प्रायंत कराव के का का प्रायंत कराव के का का प्रायंत कराव के प्रायंत कराव के का प्रायंत कराव का प्रायंत कराव का प्रायंत कराव के प्रायंत कराव के प्रायंत कराव का प्रायंत कराव का प्रायंत कराव कराव के प्रायंत कराव का प्रायंत कराव का प्रायंत कराव का प्रायंत कराव क	
 and and the second secon	
 τροποιείται το τολογου τολο	
 मेमपाइ स्वय य रहीव प्रकार कार्यत वर्गता वीगती य उत्पल रहीव प्रकार कार्य करना करना करना करना करना करना करना करना	(भोगी)/ अन्य आदिओ कार्वातीय भाष्यभाषि भाः इत्य येगे लागान मेंद प्रस्तपंत्र बोर्ड आंग म सीवयुष्टित्र अंद) एतीलपच्चा सुबोयपं मी सर्वपुरुत सर्वणाम व समामदांन होनेफुलिक गोटर्नावुल करवाम व
 1- υνοργαλά έγκασι κίπατε, θε, ου αίτατε, κουν έτλί τι, κ., ου π., α σύμε ή «απερι φυαι», θε, ου αίτατε, κουν έτλί τιτά, κ., ου π., αυχι αισταλί-και φυαι», έπει μοταπείελη ελίτει φυλαυλ δείδεια ποργ αισταλί-και φυαι» έπειδα ποταπείελη ελίτει φυλαυλ δείδεια ποργ αισταλί-και φυαι» έπειδα ποταπείελη απόμα φυαι» δείδεια ποργ αισταλί-και μοται» ποτα πάθα απόμα φυαι» δευστημικής πατάστα τημα. λ. ό συπας πλατά και απόμα πάσα αθόα ματασόα τισματί τους τημα ποταστα τημα. λ. ό συπας πλατά και απόμα στημα απόμα τηματή τους τημα ποταστα τημα. λ. ό συπας πλατά και απόμα στημα απόμα τηματή τους τημα ποταστα τημα. λ. ό συπας πλατά και απόμα στημα απόμα τηματή τους τηματής πατάστα τηματής στόδα στημα απόμα απόμα τηματή τους παι τη ποταδα πατάστα απόμα τηματή τους ποργια τηματή τους τηματής πατάστα ποταστά τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής πατάστα πατάστα ποτόδα πάρει τη πάρει τηματής τηματής τηματής πατάστα πατάστα ποτόδα τηματής τηματής τηματής τηματής πατάστα πατήμα τηματής τηματής τηματής τηματής πατάστα πατής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής πατάστα τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής πατάστα πατής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής πατήμα τημές τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής πατήμα τημές, τημης τηματή τηματής τηματής τηματής τηματής πατήμα τημές τηματήμα τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματής τηματήμα τηματής τηματήμας τημής τηματήμα τηματήμας τηματήμας τημής τηματήμας τηματής τηματήμης τηματήμας τημής τηματήμας τηματήμας τηματήμας τημής τηματήμας τηματήμας τηματήμης τηματήμας τημης τηματήμας τηματήμας τηματήμας τημής τηματήμας τηματήμας τηματήμας τημής τηματήμας τηματήμας τηματήμας τηματήμας τηματήμας τημής τηματήμας τηματήμας τηματήμας τηματήμας τημη τηματήμας τηματ	वि अभि देदिया जिमितेद । य एनसम्हीरान प्रांश उपलब्ध आहे. अनुमार मात्रान्त सथ वर्षिक अध्यान मुख्य हिराडिप्टरीय बॉप्लास्ट पर्याप्य पार्डनिली आहे.
तोवसीये निर्णाल तारीण अनुसार युवा अल्यंचे व पासवर्ड evocing/al investor///valiantorganics.com क किंगी पातृप पार काल की कर्णा अर्थाय प्रस्थाविका का नेवनीका गांव गरेगा के स्वाप्त व पातवर्ड वा पास करने वर्ष्टन पर वाइन दिने. . मारावर राशियमंत्र उठविंग पर काइन विके. . मारावर राशियमंत्र उठविंग पर काइन वाकी वेबमाइर पाठवे व कंपरेन (-मारावर वारीमामंत्रे उठविंग पर काइन वाकी वेबमाइर पाठवे व कंपरेन (-मारावर वारीमामंत्रे उठविंग पर काइन वाकी वेबमाइर पाठवे व कंपरेन (-मारावर वारीमामंत्रे उठविंग पर काइन वाकी वेकमाइर पाठवे व परिसाहिर (-मारावर वारीमा के प्रतिकार प्रदेश कार्य कार्य (-मारावर वारीमा कर्पनिका के केवर विकेस कार्य (-मारावर वारीमा कर्पनिका के केवर विकेस कार्य (-मारावर वारीमा कर्पनिका के केवर विकेस कार्य (-मारावर वारीमा कर्पनिका पाठवर कार्य कारावर कार्यने प्रयोगका प्रदेश कार कार कारावर कार्य कारावर कार्यने प्रयोगका प्रदान प्राराग प्राराग कार्यक कार्य कारावर कार्यने प्रयोगका प्रदान प्राराग प्राराग कार्यका कार्यक मार्यक कोराती मार्यने, प्रयोग्क पुरानेका पाठवर के कारावर व इनीपरची प्र (-कारावर प्राराग केवर प्राराग प्राराग काराव कारावर व इनीपरची प्र) कारावर आपने दिन्छ आधारी गांवरावरू मार्यक कारावर व इनीपरची प्र (-कारावर आपने दिन्छ आपनी गांवरावरू मारांक कारावर व इनीपरची प्र) कारावरको प्राराग वार्यनाह प्राराग काराव कार्यका प्राराग (वेका आपनी नेवर्यावर प्राराग प्राराग प्राराग कारावर कारावर काराव प्रयोगकांक उत्तरित पाठव गांवर प्राराग वाले कारावर वार्यक काराव प्रयोगकांक उत्तरित पाठव गांवर प्राराग वाले कारावर वाला काराव प्रयोगकांक उत्तरित पाठव गांवर प्रारा कारावर कार्यक वाला प्रयोगकांक उत्तरित पाठव गांवर प्राराज कार्यक काराव प्रयोगकांक उत्तरित प्राराग प्राराग वार्यक काराव प्रयोगकांक उत्तरित पाठव गांवर प्राराज कारावर कारावर प्रयोगकांक प्रारा कारावर कार्यक प्राराग कार्यक वाराव कार्यन कारावर कारावर कारावर प्राराज कारावर प्रयोगका के क्रांट पाठवा कारावर प्राराज कारावर काराव कार्यक कारावर कारावर कारावर कारावर काराव कार्यक कारावर प्रयाग वार्यनेका कारावर कारावर कारावर कारावर काराव काराव कारावर कारावर कारा कारावर कारावर कारावर काराव कारावर काराव काराव कारावर काराव कारावर काराव कार्यनेका कारावर काराव कारावर कारावर कारावर कारावर कारावर	(था, प, थे,) बंद होईल. बाबीना ईलेक्ट्रॉनिकले हेपिन गारीमा बुख्या
पर्वप्रस्थने केक्याट लाग्नेह यह उक्ताल लागाते वेक्याइट पार्व्य व कंप्रांस (-माइन आगित किट्रेडिक्या व केंग्रन किर्मेस काने, स्वावायों पूर्वायाये प्रातिक एक्ट्रेय य पीस्सीट्रों मेल्युक वा पीस्सीय उपस्थित पा साहम करन स आयरक अपनेत्र कार्यनेपा प्रायापांच साहमक काते. 5. तावाल जावीर, स्वरंग करने प्रायंग्राव्य केंग्रा क्या मार्ग कांग्रा नागि कोंग्राये वार्विन, सर्वेय करनेक प्रतीप्रमाये क्या करना का साहन कांग कोंग्राये आगीन, सर्वाय करनेका प्राराण प्राया केंग्राया कांग्राय कांग्राय कांग्रा कोंग्राये आगीन, सर्वाय करनेका प्रारंग प्राया केंग्राया नागित करनेका किंग्रा कोंग्राये आगीन, सर्वाय कर्वाय प्रायायों कांग्रा कर साहना द इनीयाची प्र प्रायास्त्रीयत कट्ट लोंगेन आरांचे य प्रावार्य प्राया करने कांग्राय सुवेयांय किंग्र प्रतारकीयत कट्ट लोंगेन आरांचे प्रायायां संदर्शाया करेग्राय सुवेयांय किंग्र कोंग्रायां कांग्रे स्वाय सुवंत्य क्या केंग्रायां करेग्राय सुवेयांय किंग्रा प्रतारकाये क्या अधिक स्वाय ताल्यांग्रा मार्गेज क्या क्या स्वाय क्या कांग प्रायाय केंग्रां अधिक स्वाय ताल्या केंग्राया स्वाय क्या क्या कांग्रा प्रायाय केंग्राय क्या कांग्रायों प्रायायांग्रायां कर स्वाय क्या कांग्राय प्रायाय केंग्राय क्या कांग्राय प्रायायांग्राय क्या गांग प्राया क केंग्राय क्या कांग्राय प्रायाय क्या कांग्राय प्रायाय केंग्राय क्या कांग्राय प्राया व्याक क्यांग्रा क्या व केंग्राय क्या स्वाय किंग्राय प्राय क्या क केंग्राय क्या स्वाय क्या किंग्राय गांग क्या क केंग्राय क्या स्वाय क्या किंग्राय क्या क केंग्राय क्या स्वायक्र क्या किंग्राय क्या क केंग्राय क्या स्वायक्र क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या	insdl.co.in वर व इंत. तथापि, जा करते
 स्वासद ज्यांसे एवंग्लमध्ये वर्तीचता सहय पांस 5 - वाद्यसाचा साहित तरहत के समय आहेत. उधारि, स्वयं स्वासद एवंग्रेस्टमध्ये पूजा मतदम यज प्रावदा निर्वत स्वास्त एवंग्रेस्टमध्ये पूजा मतदम यज प्रावदां विवर स्वास्त प्रावदां वाया वंग्रमीचता स्वरक्षांचे विवर स्वास्त वंग्रमीचता प्रावदांचे प्रात कर ताकरान दे इवीदायची पूर 2 वायाल ज्यांचे सिंह संवर्त्तात करने साहत सामये नागीत करने के स्वास प्रावदांचे के के सिंह संवर्त्ता के स्वास प्रावदांचे के स्वास प्रावदांचे कि स्वास स्वान्तवीया प्रावदां वाया तांग्रमीक स्वाती य प्रावदां प्रात कर ताकरान दे इवीदायची पूर 2 वायाल ज्यांचे सिंह संवर्त्ता का स्वाया तांग्रमीक स्वास करने के स्वांस स्वानेक कि तिर्ह ने के सिंह के के सिंह के स्वार्त्त अपने आपनी परिप्रायोग प्राति प्रात्या का स्वाया तांग्रा स्वारम का स्वान करने स्वात प्रात्या प्रात्या का प्रात्या वाया सामये स्वाप्त प्रात्या प्रात्या के स्वात प्रात्या का स्वाया स्वाया स्वारम के प्राप्त स्वाया स्वार्य स्वाय स्वाय स्वाय स्वाया प्रात्या स्वाया द्वारा स्वाया स्वाया	on nationalisi ulis h nasia samalin
पताये व हेनेकट्रांनेक प्राप्तक संबंधात हिपाँडिटरीय सह त्यांचे संबंधिक हिपाँडिटरीय समासद ये प्राप्तक स्वरूपता गंडल्ले प्राप्तक आहेत त्यांने कृतवा में, तिक हव वांना किंग जावादी mt.helpdeskoji.linkintime.co.in का 1 बंधनी investoroji.vuliantlabs.in पा किंगे प्रायमणे विप्रोडिटरीयमाद मोटलीकुत नकरेले प्रथमपुरां देवेल आपनी कांक्रीला प्रहित व्यक्तित पाहू वे म्वर्डानाकर्तीना कृतर आपनी व प्रायलंकर्ताता. १८. ये जानावर प्राप्तक स्वरूपतील भाषामाल जांके की, भारतपाल त्यांने केंक जानीला व त्यांने प्रतिक्रों कुत्र आपनी व प्रायलंकर्ताता. १८. ये जानावर प्राप्तक स्वरूपतील भाषामाल कांके की, भारतपाल त्यांने केंक जानीला व त्यांने प्रतिक्रों कुद्र, प्राण्याकाल वांके की, भारतपाल त्यांने केंक जानील व त्यांने प्रतिक्रों कुद्र, प्राण्याकाल वांके की, भारतपाल त्यांने केंक जानील व त्यांने प्रार्थ कर प्रदेश स्वरूपताल कांकी की, भारतपाल कांकी केंग (१ किंक्रोजिक्तानेड स्वरूपतील प्रेयक्रमें प्राप्त मात्रा (आपना कांकी किंगती) (१ किंक्रोजिक्तानेड स्वरूपतील प्रेयक्रमें प्राप्त मात्रा (आपना कांकी किंगती) (१ किंक्रोजिक्तानेड स्वरूपतील प्रेयक्र प्राप्त भारती किंगती) प्रारंग कार्युकी साल सारेग्रेड र्वन्ड पत्र) केंगांक्र से स्वरूपती की किंगती.	। च हेउले पाला रांग प्रमा गर्ह राम्तान (- वनरामकोल मॉर्गेंट (- वनराम जातेन क हे पालने, सथासर जे (- वे नरामें परदर- लाव
पालिस गहुत हे कहानाकोंगा कुम आबड़े व प्रस्तहंकोंगा. १८. वे मनामद प्रायव म्हल्लावील भगपालक अलेग की, भारत्याल त्यांचे संव कालील व ग्यांनी फॉलिओ क., प्रायताकार्थ यंव, रोजा गटिंफकेट (पूरील क का, के (ये कार्युपी स्वेल्ड अटेस्टेट किंग्र गत), जाता (आया कार्युपी संव ताभर कार्युपी क्यांत्रिका के अटेस्टेट किंग्र गत), जाता (आया कार्युपी संव ताभर कार्युपी क्यांत्र कार्युपी क्यां प्रायत मनामर , प्रायत किंग्र गतो गतां दिस्टेट सम्पत्ति आवड़ी के प्रायत के प्रायत नहीं के प्रायत के गतां क्रिसेट समय आवड़ के प्रायत के प्रायत मनामर , प्रायत किंग्र गतां गतां क्रिसेट समय आवड़ी के प्रायत के प्रायत के प्रायत के स्वित्य के प्रायत प्रायत कार्युपी सामग्र को प्रायत के प्रायत के प्रायत के प्रायत के प्रायत (आपत कार्युपी सिन्द सोट्टेड केंद्र पत्र) के प्रायतिका के स्वायत	वार्टीमांटम महे करावे. स्टाईम इंडिया था, लि. विनेती करववांची व
डिजीट लाभधार्थे आवाडी का मनामाडीपन - १६ डिजीट डीनीआवडी + मीएन प्राप्तर कॉर्मि या स्थापी म्हाने अडवाल, भीन (संगल कटेस्टेड स्केन्ड पा व (आपार काईकी संगल करोटोड रकेन्द्र पत) कंपतीच्या पेल आपडी	को प्राथम स्वरूपतीत व मारील) बांबी स्कृत य सरेस्टेड स्कृत प्रत
जगती investoritivaliantlabs in व्य स्थेल पराण. १३. मभामदार्थ स्थेल evolingiansill.co.in या विन्ती पराष्ट्र युक्त आपती	आवडी), नाव, क्लाहंट वा मिन कार्ड), जावा हे था जाउटेए हींग्ल
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	ते संशक्तिकीषु अंध्रमन <u>di.com</u> का उपलब्ध 1 की. अप्रिल विकाल,
हिकाल : मुंचरें	प्राजका पार्टास कंपनी सफिव

www.valiantlabs.in | CIN : L24299MH2021PLC365904

Registered Office: 104, Udyog Kshetra, Mulund-Goregaon Link Road, Mulund (W), Mumbai - 400080. T: 022-49712001 / 49717220 / 49717221 | E: investor@valiantlabs.in